INDIA PESTICIDES LIMITED

An ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 and 10002:2018 Company CIN No. L24112 UP1984PLC006894



Water Works Road, Aishbagh, Lucknow – 226004 (INDIA) Tel: +91-522-2653602, 2653603, 2653622,4041014

Fax: +91-522-2653610

Website: www.indiapesticideslimited.com
E-mail: info@indiapesticideslimited.com

Date: 31.07.2022

To

The Manager, The Manager,

Listing Department Listing & Compliance Department

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

P.J. Towers, Dalal Street, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

Mumbai – 400 001 Bandra East, Mumbai - 400051

Company Code: 543311 Company Code: IPL ISIN:- INE0D6701023

Sub: Newspaper Advertisement in connection with the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement published in the newspapers, viz., the Financial Express (English) and the Jansatta (Hindi) for giving Public Notice to the Members intimating that the 37th AGM of the Company will be held on Tuesday, 23rd August, 2022 at 12:30 P.M. (1ST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') alongwith remote e-voting details.

The above information is also available on the Company's website at https://www.indiapesticideslimited.com/InvestorRelations.php.

We request you to take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For India Pesticides Limited

(AJEET PANDEY)

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: A42500





सेबी (लिस्टिंग दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015, के विनियम 47 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी की निदेशक मंडल की बैठक सोमवार 08 अगस्त, 2022, को आयोजित की जायेगी जिसमें 30 जून, 2022, को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुशंसा की जायेगी।

उपर्युक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://delhi.apollohospitals.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

नई दिल्ली 29.07.2022

प्रिय रंजन एवीपी – कॉर्पोरेट मामले एवं विधि

MGF दि मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाऊसं, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 फोनः 23272216-18, 23276872 फैक्स नं. 23274606

ईमेलः mgfltd@hotmail.com, वेबसाइटः http://www.mgfltd.com CIN No.: L74899DL1930PLC000208

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 29 और 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशके मंडल की बैठक बुधवार, 10 अगस्त, 2022 को पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाऊस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में होगी, 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर, साथ ही उक्त वित्तीय वर्ष के तहत संपत्ति और देनदारियों का विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा कंपनी के अन्य संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, सेबी की आचार संहिता (इनसाइंडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, **शुक्रवार, 1 जुलाई, 2022** से कंपनी के निदेशकों, नामित अधिकारियों और अन्य जुड़े व्यक्तियों के लिए पहले से बंद प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 (13, 14 और 15 अगस्त, 2022 को क्रमशः अवकाश और राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण) को फिर से खोल जाएगा।

उपरोक्त बैठक का परिणाम बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www. nseindia.com जहां पर कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट पर www.mgfltd.com पर भी उपलब्ध होगा। बोर्ड के आदेशानुसार

दि मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के लिए हस्ता./— (एम. के. मदान) रजान नइ । दल्ला उपाध्यक्ष, कंपनी सचिव, सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी दिनांकः 29 जुलाई, 2022

सेवा में

प्रतिवादीगण

नंदग्राम गाजियाबाद

नंदग्राम गाजियाबाद

किया जाएगा।

रामप्रस्थ, गाजियाबाद, यू.पी.

प्रत्यार्थी

ऋण वसूली न्यायाधिकरण—।।, दिल्ली

चतुर्थे तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए. सं. 340 / 2021 दिनांक 14.06.2022

विरुद्ध

1. मैसर्स राजेश ट्रेडिंग कंपनी इसके प्रोपराईटर

श्री राजेश बिजेंट के माध्यम से. खसरा नं. 1113

ग्राम मोटा मेरठ रोड, गाजियाबाद और: ए–323

2. श्री राजेश बिजेन्दर पुत्र श्री बिजेंदर, 4-323

मैसर्स मंजू जे. होम्स इंडिया लि., इसके

निदेशकों के माध्यम से सी–294, प्रथम तल

विवेक विहार दिल्ली, **और:** सी–10, तृतीय तल

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपरं

1.03.65.602/- (रु. एक करोड़ तीन लाख पैंसठ

हजार छः सौ दो मात्र) की वसूली हेतु एक वाव

स्थापित किया है तथा जबिक न्यायाधिकरण के संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि

आपको साधारण रूप से सूचना दिया जान

संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इर सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 16-08-2022** को पूर्वा. **10.30 बजे** माननीय न्यायाधिकरण के

समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद

की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति रं

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सर्भ

मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम रं

(i) सभी अधिवक्ता / पात्रगण ''सिस्को वेबेक्स'

(ii) ''रजिस्ट्रार / रिकवरी ऑफिसर—। / औ

रेकवरी ऑफिसर—।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली

सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए ''मीटिंग आईडी'' और ''पासवर्ड'' अगली तिथि

से एक दिन पहले डीआरटी के अधिकारिक

पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" के पब्लिक नोटिस

(iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स,

पात्रगण संबंधित अधिकारी से फो

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर वं

प्राधिकरण के आदेशानुसार

ऋण वसूली प्राधिकरण — ।।, दिल्ली

सहायक रितस्टार

011—23748478 पर संपर्क कर सकते हैं।

तहत **14 जून, 2022** को दिया गया।

इस्जे़क हैवी् इंज़ीनियरिंग लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: रादौर रोड, यमुनानगर-135001 (हरियाणा

CIN: L23423HR1933PLC000097

दुरभाष: 01732 - 661061,

ईमेल: roynr@isgec.com, वेबसाइट: www.isgec.com

सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनयम, 2013 ("अधिनयम") की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20, सेबी के विनियमन 44 (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 ("LODR ") (संशोधित), सामान्य बैठक पर संचिवीय मानक (एस्एस-2) और मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा जारी

परिपन्न दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 ("MCA परिपन्न "), कंपनी अपने सदस्यों को, रादौर रोड, युमुनानगर-135001, हरियाणा में स्थित कंपनी का पंजीकृत कार्या्वय में इलेक्ट्रॉनिक् माध्यम

राहु वस्तानार-13500, हिराजा में तिरंत क्या की विजाय करिया किया कि स्वार्ध नायक मौक्रम से जिसे बैठक का स्थल माना जाएगा, बुधवार, 24 अगस्त, 2022 की सुबह 11:30 बजे (IST) आयोजित होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विचार किये जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावीं पर वीडियो कॉ फ्रेंसिंग (VC) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (OA/M) के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है ताकि वे वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) को अधिकृत एजेंसी के रूप में की सेवाएं ली हैं। एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के साथ प्रस्तु हैं कीटेंग स्वार्था कर अपने अधिकार एजेंसी के रूप में की सेवाएं ली हैं वह लाने की अधिकार एजेंसि

के साथ-साथ ई-वोटिंग का उपयोग कर सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा NSDL द्वारा प्रदान क

जाएगा। उपरोक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा 13 मई, 2022 के साथ-साथ पठित के अनुपालन में एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिय्ट्स के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

के साथ एजीएम की सुनना कंपनी को वैबसाइट www.isgec.com पर नीटिस के तहत इन्वेस्ट रिलेशन्स अनुभाग में शेयरधारकों के टैब पर और वृष्टिक रिपोर्ट टैब के अंतर्गत और एनएसडीएर

की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर भी

रिसोट ई-वोटिंग **रविवार, 21 अगस्त, 2022 को सुबह 9:00 बजे (IST)** से शुरू होगी और मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को शाम 5:00 बजे (IST) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की **कट-ऑफ** तिथि **17 अगस्त, 2022** है। केवल वे व्यक्ति, जिनका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों/लाभार्थियों के मालिकों के रजिस्ट्र में दर्ज है, एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का

हकदार होगा।
कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 17 अगस्त, 2022 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर या कंपनी/आरटीए roynr@isgec.com. rta@alankit.com या ramap@alankit.com यर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए मोजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

सदस्यों को ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा NSDL द्वारा प्रदान की जा रही है। VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम

प्रजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। जो सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे बैठक में मतदान करने

iii) इतेक्ट्रॉनिक वीटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ-साथ NSDL द्वारा सदस्यों को भेजे गए ई-मेल में भी उपलब्ध है। सदस्य NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध "ई-वोटिंग यूजर मेनुअल" भी देख सकते हैं।

पूछताछ के लिए, सदस्य <u>www.eyoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के लिए फ्रेंक्टली आस्कड केश्वन (FAQ) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं

या टोल फ्री नंबर: 1800- 1020-990 या 1800-22-4430 पर कॉल कर सकते हैं या है-मेल अर्ड्डी स्थारित एक एक स्थारित कर सकते हैं या है-मेल अर्ड्डी स्थराता@nsdl.co.in पर या ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 पर एक अनुराध भेजू सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी

मुंबई - 400013 पर एक अनुराध मंज सकत हो । रामांट इ-वादिन वो इ-वादिन को खुवधा से जुड़ा किसी शिकायत के मामले में, कृपया श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक के <u>amity@nsdl.co.in</u> पर या सुश्री पल्लवी म्हांत्रे, वरिष्ठ प्रबंधक pallayid@nsdl.co.in से संपर्क करें, या NSDL से निर्दिष्ट इंमेल आईडी: <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर या टेलीफोन नंबरों पर: 022 -24994545 पर संपर्क करें। सदस्य कंपनी को ईमेल आईडी <u>roynr@isgec.com</u> पर भी लिख सकते हैं। **बुक क्लोजर और रिकॉर्ड तिथि की सूचना:**

बुक ब्लाजर आर (रकोड तिथि को सूचना: संबी (LODR) के अधिनेयम की धारा 91 और विनियम 42 के तहत भी नोटिस दिया गया है कि कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश के लिए यदि एजीएम में मंजूरी दी जाती है तो सदस्य की पात्रता निर्धारित करने के लिए बुधवार, 17 अगस्त, 2022 को **रिकॉर्ड तिथि** के रूप में निर्धारित किया है। और कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स गुरुवार, 18 अगस्त, 2022 से बुधवार, 24 अगस्त, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

हेड के अंतर्गत उपलब्ध होगी।

., एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए:–

श्री राजेश ट्रेडिंग कं. एवं अन्य

पंजाब नैशनल बैंक

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।।, दिल्ली चतर्थे तल जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ.ए. सं. 89 / 2021 दिनांक 14.06.2022 पंजाब नैशनल बैंक आवेदक

विरुद्ध श्री संदीप बग्गा एवं अन्य सेवा में.

प्रतिवादीगण . श्री संदीप बग्गा पुत्र श्री गोकल चंद बग्गा, एफ–15, सेक्टर –21 जल वायु विहार नोएडा – 201301, **और:** एच–0013, एफएफ, प्लॉट नं. जीएच–04, एसोटेक विंडसर कोर्ट सेक्टर–78

2. श्री राजीव श्रीवास्तव (गारंटर) पुत्र श्री मदन प्रसाद श्रीवास्तव, ए—60, सेक्टर—33 नोएडा यूपी

2. मैसर्स एसोटेक लि., इसके निदेशकों के माध्यम से, निवासी 148-एफ, पॉकेट IV, मयूर विहार फेज-।, दिल्ली - 91 और कॉर्पोरेट **कार्यालयः** ए—12, सेक्टर—24, नोएडा, यू.पी.

जबिक उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये जबाक उपरावत आवदक न आपका वरुद्ध रुपय 75,13,097.48 (रु. पिचहत्तर लाख तेरह हजार सतान्वे और पैसे अडवाजीस मात्र) की वसूती हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबिक न्यायाधिकरण को संतोषजन्क रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दियाँ जाना संभव नहीं है, इसलिए, आपको **दिनांक 16-08-2022 को पूर्वा. 10.30 बजे** माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे. वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिर्थात में कियाँ जाएगा।

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए:-(i) सभी अधिवक्ता / पात्रगण ''सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

"रजिस्टार / रिकवरी ऑफिसर—। / और रिकवरी ऑफिसर— । । द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनुवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए पुनवार पर नानला पर्रा जनला ताराज पर लिए 'मीटिंग आईडी'' और ''पासवर्ड'' अगली तिथि से एक दिन पहले डीआरटी के अधिकारिक पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" के पब्लिक नोटिस हेड के अंतर्गत उपलब्ध होगी।

(iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स / पात्रगण संबंधित अधिकारी से फो फोन 011—23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत **14 जून, 2022** को दिया गया। प्राधिकरण के आदेशानुसार,

सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली प्राधिकरण – ।।, दिल्ली

ISGEC

के नोटिस में दिए गए हैं।

के पात्र नहीं होंगे।

(पूर्व में, साइ माह जाटा त्रावर त्यानट25, सीआईएन: 134300DL1985PLC02510 पंजी. कार्यालय : सी-582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ईमेल आईडी: polymersams@gmail.com े वेबसाइंट: www.amspolymers.com टेली.: 91-11-27032702 | फैक्स: 91-11-27032702

एएमएस पॉलिमर लिमिटेड (पूर्व में, साई मोह ऑटो लिंक्स लिमिटेड)

बोर्ड बैठक की सूचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम सबा (एलआड)आ/। वानयम, 2015 क वानयम 47 के अनुसार, एत्हुवारा सूचना दी जाती है कि निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 05 अगस्त,** 2022 को कंपनी के पंजीकृत कार्यात्व प्र आयोजित की जायेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा।

वेबसाइट उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट www.amspolymers.com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध

बोर्ड के आदेश से कृते एएमएस पॉलिमर लिमिटेड हस्ता/ चिरंजीवी रामव स्थान: दिल्ली दिनांक: 29.07.2022

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

Publication Receipt No.: IN THE COURT OF SH. PAWAN KUMAR JAIN, LD. DISTRICT JUDGE, COMM.- 03, ROOM NO. 307, CENTRAL DISTRICT, TIS

HAZARI COURT. DELHI CS (COMM)- 1727/2019 **Next Date of Hearing** 21.09.2022 ICICI BANK LTD. V/S. SURESH KUMAR

SURESH KUMAR OFFICE ADDRESS:- SMS ON WHEEL LOGISTICS & ROAD LINES PVT. LTD. PLOT NO.5, KRISHNA CHOWK

PALAM VIHAR, GURGAON-

122001 WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 21.09.2022 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, 23.07.2022.

District Judge (Commercial Court)-03 Tis Hazari Courts, Delh

ई-निविदा सूचना

40 टन क्षमता के 06 फिक्स्ड कंटेनर टिलर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिः एसआईटीसी) के लिए दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन ओपन ई—निविदा आमंत्रित की जाती है।

नेविदा सं CON/TECH/BULK/FIXED TILTER/2022-23 ₹ 1,69,21,200 / — जीएसटी सहित अनुमानित लागतृ याना राशि ₹ 3,38,424 निविदा दस्तावेज की लागत ₹ 1,000 / — ई—भुगतान के माध्यम से जीएसटी सहित निविदा प्रक्रिया शल्क ₹ 4,720 / — ई—भुगतान के माध्यम से जीएसटी सहित निविदा की बिकी की तिथि 29.07.2022 को 17.30 बजे से 22.08.2022 को 18.00 बजे तक निविदा की अंतिम तिथि एवं समय | 23.08.2022 को 18.00 बजे तक निविदा खुलने की तिथि एवं समय 24.08.2022 को 12.00 बजे स्तृत विवरण एवं किसी शुद्धिपत्र के लिए कृपया www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन क्रें समूह महाप्रबंधक / पीएंडएस / एरिया–IV

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda Parage Da AA

शाखाः सावित्री प्लाज़ा, पटपड़गंज, दिल्ली—110092

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित

अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, का** प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) व अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक श्री अखिलेश कुमार प्रोपराइटर मैसर्स. ए.के. ओवरसीज और गारंटर- श्रीमती पुष्पा त्यागी, श्री अतुल त्यागी और श्री सचिन त्यागी को दिनांक 13.05.2022 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 92,81,429.84 (रु. बान्वे लाख इक्यासी हजार चार सौ उनतीस और पैसे चौरासी मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभूगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 28.07.2022 को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ़ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते रू 92,81,429.84 (रु. बान्वे लाख इक्यासी हजार चार सौ उनतीस और पैसे चौरासी मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण व्यवसायिक स्पेस नं. 5 प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 160, जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 32.60 वर्ग मी., भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ, व्यवसायिक

आंचलिक कार्यालय, ५५ दि माल,

मेरठ केन्ट

कॉम्पलैक्स जिसे अब "W.S.M" हाट कहते है, गाँव अर्थला, परगना लोनी तहसील औश्र जिला गाजियाबाद, जी.टी. रोड, गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में — दुकान नं. 06, दक्षिण में – दुकान नं. 04, पूरब में – खुला रास्ता, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति

दिनांक : 28.07.2022, स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

इंडियन बेंक Indian Bank

🗘 इलाहाबाद

ALLAHABAD अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना

नेम्नलिखित उधारकर्ता / प्रतिभूति को वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभूतहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत (डिमांड नोटिस) मांग सूचना भेजे गये थे। ये डिमांड नोटिस बिना वेतरण के वापस आ गये है 🖊 अथवा इनकी पाँवती हमें नहीं मिली है। आपको एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित धनराशि तथ व्याज का भुगतान नोटिस की तिथि के 60 दिन के अन्दर करें अन्यथा बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए बंधक सम्पत्ति परिसम्पत्तियों का अधिग्रहुण बिना अन्य सचना / नोटिस के कर लेगा।

ऋणी / गारंटर का नाम	प्रतिभूमि / सम्पत्ति	डिमांड नोटिस की तारीख
व पता एवं खाता सं0	का विवरण	15.07.2022
1. मैसर्स मान सिंह ऑयल ट्रेडर्स प्रोपराइटरशिप फर्म	एक आवासीय संपत्ति कुल क्षेत्रफल	एन पी ए की तारीख 30.01.2020
प्रोपराइटर श्रीमती राम श्री देवी (ऋणकर्ता) पताः		
मौहल्ला शेखजादगन, कैराना बायपास रोड,		
	कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश,	
2. श्रीमती राम श्री देवी पत्नी श्री नसीब सिंह,	सीमार्येः— पूर्वः (76'—00'') श्री विनोद	डाक विभाग द्वारा डिमांड नोटिस (रजिस्टर्ड)
प्रोपराइटर मैसर्स मान सिंह ऑयल ट्रेडर्स (प्रोपराइटर		
	रास्ता, उत्तर (100'–00'') रास्ता, दक्षिणः	नोटिस के अनुसार देय राशि
3. श्री. राज सिंह पुत्र श्री नसीब सिंह (गारंटर)		₹0 22,01,059.00
सभी निवासीः मौहल्ला शेखजादगन, कैराना		
	श्री देवी पत्नी श्री नसीब सिंह	
खाता संख्या 6221263444 और 6854964721		+ दिनांक 15.07.2022 से ब्याज एवं अन्य
इंडियन बैंक, कांधला शाखा	कैराना बायपास रोड, कांधला।	खर्चे आदि
दिनांक—29.07.2022	स्थानः मेरठ	प्राधिकृत अधिकारी



यनियन बैंक ऑफ इंडिया. मेरठ मैन (905054), 208 ओलम्पिक चैम्बर्स, बेगम ब्रिज, मेरठ-250001

नियम 8(1) कब्जा सुचना

जैसा कि. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित पूर्वान (दितीय) अधिनियम, 2002 (2002 के आई. 3) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मैन (905054), 208 ओलम्पिक चैम्बर्स, बेगम ब्रिज, मेरठ-250001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.5.2019 जारी कर मै. अक्षरा ऑटोमोबाईल्स, प्रॉप श्री अशोक कुमार, 77/2, एनएएस कॉलेज के सामने, गर्ग कॉम्प्लेक्स, छिपी टैंक, मेरठ-25000, श्री अशोक कुमार, सी-305, राधा गार्डन, गंगा नगर मवाना रोड मेरठ उ.प्र. 250001 (प्रॉप्टाईटर), श्रीमती रीना, पत्नी अशोक कुमार (गारंटर) सी-305, राधा गार्डन, गंगा नगर मवाना रोड मेरठ उ.प्र.-250001 (31.3.2019 को एनपीए वर्गीकृत) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 9,15,161.50/- + उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 28.07.2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.05.2019 को रु. 9,15,161.50 तथा सभी खाताओं में उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मैन (905054), 208 ओलम्पिक चैम्बर, बेगम ब्रिज, मेरठ 250001 के चार्ज के अधीन होगा।

आप ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण:

राधा गार्डन कॉलोनी, राजस्व ग्राम कसेरू बक्सर, मेरठ में स्थित खसरा नं. 524 से संबंधित आवासीय मकान सी-305, माप 167.22 वर्ग मीटर, 200 वर्ग यार्ड्स के बराबर जिसकी चौहद्दी टाइटल डीड तिथि 2.6.2016 के अनुसार इस प्रकार है:

उत्तरः 60 फीट जिसके बाद प्लॉट नं. 306 पूर्वः 30 फीट जिसके बाद प्लॉट नं. 300 स्वामी: श्रीमती रीना, पत्नी अशोक सक्सेना तथा श्री अशोक सक्सेना पुत्र उमेश चन्द सक्सेना

दक्षिणः 60 फीट जिसके बाद सम्पत्ति 304 पश्चिमः 30 फीट जिसके बाद 40 फीट चौड़ा रोड

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मैन (905054), 208 ओलम्पिक चैम्बर्स, बेगम ब्रिज, मेरठ-250001

नियम 8 (1) कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (द्वित्तीय)अधिनियम, 2002 (2002 के आर्ड.3) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मैन (905054), 208 ओलम्पिक चैम्बर्स, बेगम ब्रिज, मेरठ-250001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18.1.2019 जारी कर मै. श्री ऑटो वर्ल्ड, प्रॉप. आकाश सक्सेना, पी-119, पल्लवपुरम, फेज-II, मेरठ-25001, आकाश सक्सेना, पुत्र उमेश चन्द सक्सेना (प्रॉप्राईटर) पी-119, पल्लवपुरम, फेज-II, मेरठ-25001, श्रीमती रीना, पत्नी अशोक कुमार (गारंटर), अशोक कुमार (गारंटर-2), सी-305, राधा गार्डन, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ (उ.प्र.-250001 (गारंटर) (31.12.2018 को एनपीए वर्गीकृत को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,87,273 तथा उस पर ब्याज+अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 28.07.2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 18.01.2019 को रु. 487273/- तथा सभी खाताओं में उस पर ब्याज एवं अन्य चार्जेज के लिये यूनियन बैंक आफ इंडिया, मेरठ मैन (905054), 208 ओलम्पिक चेम्बर, बेगम ब्रिज, मेरठ 250001 के चार्ज के

आप ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पतियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

राधा गार्डन कालोनी, राजस्व ग्राम कसेरू बक्सर, मेरठ में स्थित खसरा नं. 524 से संबंधित आवासीय मकान सी-305, माप 167.22 वर्ग मीटर, 200 वर्ग यार्ड्स के बराबर जिसकी चौहद्दी टाइटल डीड तिथि 2.6.2016 के अनुसार इस प्रकार है।

चौहदी : उत्तर : 60 फीट जिसके बाद प्लॉट नं. 306 दक्षिण : 60 फीट जिसके बाद सम्पत्ति 304 'पूर्व : 30 फीट जिसकी बाद प्लॉट नं. 300 पश्चिम : 30 जिसके बाद 40 फीट चौड़ा रोड

स्वामी: श्रीमती रीना, पत्नी अशोक सक्सेमा तथा श्री अशोक सक्सेना पुत्र उमेश चन्द्र सक्सेना

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



CIN: L15311DL1993PLC052624 Reg. Office: 149, 1st Floor, Kilokari, Ring Road, Ashram, New Delhi-110014
Corporate Office: 1401-1411, 14th Floor, Logix City Centre, Sector-32, Noida-201301, Uttar Pradesh
Tel.: 0120-6013232, Email: dfm@dfmfoods.com, Website: www.dfmfoods.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022

(Rs. in Lakhs)

SI.		Quart	er Ended	Year Ended	
No.	Particulars	30 th June, 2022	30 th June, 2021	31st March, 2022	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
1.	Total income from operations	14590	11045	55445	
2.	Net Profit / (Loss) for the period	(1921)	(222)	(3271)	
3.	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/ (Loss) for the period before tax	(1921)	(222)	(3271)	
4.	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1441)	(173)	(2476)	
5.	Total Comprehensive Income for the period	(1434)	(162)	(2447)	
6.	[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital, Equity Shares of Rs. 2/- each	1005	1005	1005	
7. 8.	Other Equity as shown in the Audited Balance sheet Earnings Per Equity Share of face value of Rs.2/- each			14269	
	(for continuing and discontinued operations)	(2.87)	(0.34)	(4.93)	
	Basic Diluted	(2.87)	(0.34)	(4.93)	

Notes:

Place: Noida

Date: 29th July, 2022

1. The above unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2022 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 29th July, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of

the above financial results and they have issued an unmodified report.

These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as laid down in the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time

The Company has net deferred tax liability amounting to Rs. 172 lakhs as at June 30, 2022 which is after set-off of deferred tax asset recognised on brought forward and current period unabsorbed loss and depreciation amounting to Rs. 1,350 lakhs as at June 30, 2022 consistent with applicable accounting standard. The Code on Social Security, 2020 ("Code") relating to employee benefits during employment and post employment benefits received Presidential

assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of

However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.

 Based on the guiding principles in Ind AS 108 on 'Operating Segments' the Company's business activity falls within a single operating segment, namely Snack Foods. Accordingly there are no reportable segments.

The figures for the preceding quarter ended 31st March, 2022, as reported in these financial results, are the balancing figures between audited results

in respect of the full financial year ended 31st March, 2022 and published year to date unaudited figures up to the third quarter of that financial yea The above is an extract of the detailed format of the unaudited Financia Results for the quarter ended 30th June 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of the unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022 are available on the BSE website at www.bseindia.com, NSE website at www.nseindia.com and on the Company's website at www.dfmfoods.com

> FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD LAGAN SHASTRI **MANAGING DIRECTOR & CEO**





पंजीकृत कार्यालयः 35-ए सिविल लाइन्स बरेली उत्तर प्रदेश-243001 कॉर्पोरेट कार्यालय:- वॉटर वर्क्स रोड स्वरूप कोल्ड स्टोरेज कंपाउंड, ऐशबाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004 फोन नं0: 91 522 2653602, ई मेल: Investor@indiapesticideslimited.com वेबसाइटः www.indiapesticideslimited.com

सैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना यह सूचित करना है कि वीडियो कान्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/ अन्य आडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीम") के माध्यम से कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय और

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी एवं लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित होने वाली कम्पनी की सैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगेलवार, 23 अगस्त, 2022 को भारतीय समयानुसार (भा.स.) दोपहर 12:30 बजे बुलाने की एजीएम सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष ावसायों को लेन—देन करने के लिए और वित्तीय वर्ष 2021[—]22 के लिए कम्पनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की प्रति एजीएम के नोटिस के साथ व अन्य दस्तावेजों के साथ 29 जुलाई, 2022 को इलेक्ट्रानिक मोड से कम्पनी सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के साथ पंजीकृत हैं को भेजे गए हैं। एजीएम की सचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.indiapesticideslimited.com पर और स्टाक एक्सचेंजो की वेबसाइट यानी बाम्बे स्टार्क एक्सचेंज लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टार्क एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और NSDL की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। एम की सचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के सर्कूलेशन की तारीख से सदस्यों द्वारा निर

ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य Investor@indiapesticideslimited.com पर ई–मेल प्रार्थना भेज सकते है ।

रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम के दौरान ई—वोटिंगः

कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों ("ई–वोटिंग") द्वारा, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर, मतदान के अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों ("दूरस्थ ई–मतदान") पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कम्पनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। डीमैटेरियल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने सहित मतदान के तरीके सहित सूचना और निर्देश और जिन सदस्यों ने

अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। जो व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजने और कट–ऑफ तिथि यानी 16.08.2022 तक शेयर रखने के बाद कम्पनी के सदस्य बन जाते हैं, वे भी अपना वोट डालने के पात्र हैं। सदस्य जो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं 🖊 उत्पन्न कर सकते हैं जैसा कि एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

रिमोट ई—वोटिंग की शुरुआत : शनिवार, 20 अगस्त 2022 सुबह 9:00 बजे (भा.स.)

रिमोट ई—वोटिंग की समाप्ति : सोमवार 22 अगस्त 2022 को शाम 5:00 बजे तक। (भा.स.)

उपरोंक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट ई–वोटिगं माड्यूल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ('NSDL') द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा।

एजीएम में भाग लेने वाले सेंदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रानिक मतदान कर सकेंगे। वह व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि, यानी मंगलवार अगस्त 16, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का

लाभ उठाने का हकदार होगा।

लामांश और उसके भुगतान की रिकार्ड तिथि:

क. कम्पनी ने 31 मार्चे, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 12 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

ख. लाभांश का भुगतान एजीएम के समापन के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, उन सदस्यों के लिए जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर पर और उन सदस्यों के लिए जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड तिथि पर लाभकारी मालिकों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, डीमैटिरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में दिखाई देते

ग. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होनें कम्पनी में अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत किया है। लाभांश वारंट उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगें जिन्होनें अपने बैंक खाता का विवरण अभिलिखित नहीं किया है।

लामांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट (Mandate) दर्ज करने का तरीकाः

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत / अपडेट करें: यदि शेयर डीमैटिरियलाइज्ड मोड में रखा गया है, तो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के साथ, फार्म और दस्तावेज, जमा करके पंजीकृत / अपडेट

ई—मेल पता पंजीकृत / अपडेट करने के तरीकाः

. डीमैटिरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले कार्पोरेट सदस्य, जिन्होनें अपना ई—मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स जहाँ वे अपने डीमैट खाते रखते है, में पंजीकृत / अपडेट करें।

ई–वोटिंग से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न हो तो सदस्य ई–वोटिंग करने के लिए NSDL वेबसाइट : https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन मे

ड्रापडाउन मैन्यू के माध्यम से "एफएक्यूस" सेक्शन ∕ ई−वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि कोई प्रश्ने / शिकायत हो तो उनके समाधान के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें: श्री अजीत पाण्डेय, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, इंडिया पेस्टीसाइड्स लिमिटेड, वॉटर वर्क्स रोड, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज कंपाउंड, ऐशबाग लखनऊ—226004. दूरभाष: 91—522—2653602 / 03, ईमेल:investor@indiapesticideslimited.com वेबसाइटः|

www.indiapesticideslimited.com वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होनाः सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से NSDL वेबलिंक: https://:www.evoting.nsdl.com पर एजीएम में भाग ले सकेंगे। उपयोग किए जाने वाले

नाग—इन क्रेडेंशियल के बारे में जानकारी और एजीएम में भाग लेने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों को एजीएम की नोटिस में समझाया गया है। रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के पात्र नहीं होंगे।

लामांश पर कर: आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में, लाभांश निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के अधीन होगा।

निदेशक मंडल के आदेश से अजीत पाण्डेय,

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्याः A42500

दिनांकः 29.07.2022

कृते इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थान: नोएडा दिनांक: 29.07.2022

हस्ता /-



श्वेता अग्रवाल कंपनी सचिव

तिथि: 28.7.2022, स्थान: मेरठ









DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER (M)-5

EXECUTIVE ENGINEER (T2)M-5 ROOM NO. 312, VARUNALAYA PHASE-I, JHANDEWALAN, DELHI-110005



	PRESS NIT No. 62 (2022-23)(M)-5						
S. lo.	Name of work	Amount put to Tender	(EMD)	Tender Fee (Non- Refundable)	Tender/Tender Id.	Last date/time of receipt of tender	
	Providing and laying 200mm dia. D. I. water line to improve the water supply system in Prem		₹ 1,34,100/-		Dt. 28/07/2022 2022_DJB_226973_1	11/08/2022 Upto 03.00 PM	

urther details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in

(Mohd. Idris Ali) Advt. No. J.S.V. 267 (2022-23) Executive Engineer (T2)M-5 "STOP CORONA Wear Mask, Follow Physical Distancing and Maintain Hand Hygiene

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/39/2022

Uploading Annual Report and Abridged Summary for schemes of Mirae Asset Mutual Fund NOTICE is hereby given to all investor(s) / Unit holder(s) of Mirae Asset Mutual Fund ("the Fund") that in

accordance with Regulation 54 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and read with SEBI (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 dated May 30, 2018 and SEBI Circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the Annual Report and Abridged Annual Report of the Schemes of the Fund for the year ended March 31, 2022 has been hosted on the website www.miraeassetmf.co.in and AMFI viz. www.amfiindia.com.

The scheme wise abridged annual report thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email address are registered with the Mutual Fund.

Investors can request for physical / soft copy of the Abridged summary of the Annual Report through any of the following means:

- 1. Email: customercare@miraeasset.com;
- Toll free number: 1800-2090-777
- SMS: Send SMS to 9289200052 from your registered Mobile number. SMS format "ARE" for soft copy and "ARP" for physical copy;
- Letter: Written request letter can be sent at KFin Technologies Limited, Karvy Selenium, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nankramguda, Serilingampally, Gachibowli, Hyderabad - 500 032.

For and on behalf of the Board of Directors of MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD. (Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place: Mumbai Date : July 29, 2022

AUTHORISED SIGNATORY

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625).

Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098 ■ 1800 2090 777 (Toll free),
□ customercare@miraeasset.com
□ www.miraeassetmf.co.in

> Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



BHILWARA TECHNICAL TEXTILES LIMITED

CIN: L18101RJ2007PLC025502

Registered Office.: LNJ Nagar, Mordi, Banswara-327 001, Rajasthan Phone: 02961-231251-52, 02962-302400, Fax: 02961-231254 Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector -1, Noida - 201 301 (U.P) Phone: 0120 - 4390300 (EPABX), Fax: 0120-4277841 E-mail: bttl.investor@Injbhilwara.com, Website: www.bttl.co.in

NOTICE OF THE 15TH ANNUAL GENERAL MEETING OF BHILWARA TECHNICAL TEXTILES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO **CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS**

NOTICE is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of Bhilwara Technical Textiles Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 31st day of August, 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") /Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Businesses as set out in the Notice of the Fifteenth AGM which will be sent in due course of time. The venue of the meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company at LNJ Nagar, Mordi, Banswara - 327 001, Rajasthan.

Members may note that, in view of Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 which read together with previous Circulars No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 02/2021 dated January, 13, 2021, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020 and No.14/2020 dated April 8, 2020 and also in accordance with Circulars issued by Securities Exchange Board of India ("SEBI") i.e. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ("collectively referred as Applicable Circulars") permitting the holding of AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") during the calendar year 2022, without the physical presence of the members at the venue. In compliance with these Applicable Circulars, the 15th AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM without the physical presence of the members at the AGM venue. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/ OAVM only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM.

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and also in furtherance of Go Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.bttl.co.in, on the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com).

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the 25th August, 2022 to Wednesday, the 31st August, 2022 (both days inclusive) for the purposes of 15th Annual General Meeting of the Company.

The Company will be providing facility of remote e-voting and e-voting at the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has made arrangement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

The remote e-voting period commences on Sunday, the 28th August, 2022 (9:00 a.m.) and end on Tuesday, the 30th August, 2022 (5:00 p.m.). Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off date of Wednesday, the 24th August, 2022, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-Off date of Wednesday, the 24th August, 2022 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM. Login details for e-voting shall be made available to the members on their registered email address.

Members are requested to provide their email addresses and bank account details to Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited of the Company or Depository Participants (DP). The process of registering the same is mentioned below:

In case of Physical shareholding Send a duly signed request letter in Form ISR-1 along with supporting documents to the RTA of the Company i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited (Unit: Bhilwara Technical Textiles Limited), 3rd Floor, 99, Madangir. Behind Local Shopping Centre, New Delhi - 110062 or scanned copy on email at beetalrta@gmail.com and provide the following details/documents for registering email address:

a) Folio No., b) Name of shareholder, c) Email ID, d) Copy of PAN card (selfattested), e) Copy of Aadhar (self-attested) f) Copy of share certificate (front and back). In case of Demat Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address

shareholding and bank account details in your demat account, as per the process advised by Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses

with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM. In case of any queries/grievances, Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" available

at downloads section of http://www.evoting.nsdl.com or call the toll free no.: 1800 1020 990 and The above information is being issued for the information and benefit of all Members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular(s).

By the order of the Board of Directors For Bhilwara Technical Textiles Limited

Place: Noida (U.P.) **Avinav Sharma** Company Secretary, Compliance Officer and Date: 30th July, 2022 Chief Financial Officer (ACS-42599)



INDIA PESTICIDES LIMITED

CIN: L24112UP1984PLC006894 Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly – 243 001, Uttar Pradesh, India. Tel: +91 0581 2567459 Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage CompoundAishbagh, Lucknow - 226 004, U.P. Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.cor

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY THIRTY-SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND INFORMATION OF E-VOTING

This is to inform that the Thirty-Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on Tuesday, 23rd August, 2022 at 12:30 P.M. IST to transact Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM. The copy of the Integrated Annual Report of the Company for the F.Y. 2021-22 along with the Notice of AGM, have been sent/mailed on 29th July, 2022, electronically to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agents. The Notice of AGM and the Integrated Annual Report are also available on the Company's website at <u>www.indiapesticideslimited.com</u> and on the website of Bombay Stock Exchange Ltd. ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> espectively, and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, i.e. 35-A Civil Lines Bareilly, Uttar Pradesh

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the Members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to nvestor@indiapesticideslimited.com

Remote e-voting and e-voting during AGM: he Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by lectronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting") The Company has engaged National Securities Depository Limited ('NSDL') as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by Members holding shares in dematerialized mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The persons who become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date i.e. 16.08.2022 are also eligible to cast their vote. Members who have forgotten their User ID and Password, can obtain/ generate the same as has been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period

Commencement of remote e-voting: Saturday, 20th August, , 2022 at 09:00 AM End of remote e-voting: Monday, 22nd August, 2022 at 05:00 PM

he remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote evoting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut-off date, that is, Tuesday, 16" August 2022, only shall

be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through Insta Poll RECORD DATE FOR DIVIDEND AND PAYMENT THEREOF

. The Company has fixed Friday, 12th August, 2022 as the "Record Date" for determining entitlement of Members to dividend ecommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended March 31, 2022.

. The dividend will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM, to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record date and in respect of the shares held in dematerialized mode to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd. as beneficial owners as on the Record Date.

:. Payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have registered their bank account details with the Company. Dividend warrants will be dispatched to the registered address of the Members who have not recorded their bank account details

Manner of registering mandate for receiving Dividend

investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslin

it the prescribed rates.

Members are requested to register/update their complete bank details: With their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat account, if shares are held in dematerialized mode by

ubmitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s)

Manner of registering/ updating e-mailing address: Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address are requested to register/update their email address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts. In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "FAQs" section/ E-voting user manual available through a

dropdown menu in the 'Downloads' section of NSDL website for <u>e-voting https://www.evoting.nsdl.com.</u> Members are requested to note the following contact details for addressing queries/grievances, if any: Mr. Ajeet Pandey, Company Secretary & Compliance Officer, India Pesticides Limited., Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound, Aishbagh, Lucknow-226004. Telephone: +91-522-2653602/03, Email:

oining the AGM through VC/OAVM: Alembers will be able to attend the AGM through VC/OAVM, via NSDL Weblink https://www.evoting.nsdl.com. The information about login credentials is to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the Notice of AGM. Members who have cast their votes by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM. Tax on Divided: In terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961, divided shall be subject to deduction of tax at source ("TDS"

> By Order of the Board For India Pesticides Limited

> > Ajeet Pandev

Place: Lucknow Company Secretary & Compliance Officer Date: 29.07.2022



Gujarat Hotels Limited

CIN: L55100GJ1982PLC005408 Regd. Office: WelcomHotel Vadodara, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007 Tel.: +91 0265 2330033

E-mail: ghlinvestors@yahoo.co.in Website: www.gujarathotelsltd.in

Members of the Company are hereby informed that despatch of the Notice of the 40th Annual General Meeting ('AGM') of the Company convened for Tuesday, 23rd August, 2022 at 11:00 a.m and the Report and Accounts for the financial year ended 31° March, 2022 has been completed on 28th July, 2022 in conformity with the regulatory requirements.

The AGM Notice and Report and Accounts of the Company for the financial year ended 31st March, 2022 are available on the Company's website (www.quiarathotelsltd.in). The AGM Notice is also available on e-voting website of Central Depository Services (India) Limited(CDSL)(www.evotingindia.com) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), where the Company's shares are listed.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 40th AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of CDSL have been engaged by the Company.

Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e Tuesday, 16th August, 2022 will be entitled to cast their votes by remote e-voting or e-voting during the AGM. Those who are not Members on the cut-off date should accordingly treat the AGM Notice as for information purposes only.

Remote e-voting will commence at 10:00 a.m. on Friday 19th August, 2022 and will end at 5:00 p.m. on Monday 22ndAugust, 2022, when remote e-voting will be blocked by CDSL. Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their votes once

Persons who become Members of the Company after sending the AGM Notice but on or before the cut-off date may write to CDSL at helpdesk.evoting@cdsl.co.in or to the Company at qhlinvestors@yahoo.co.in requesting for user ID and password for remote e-voting or e-voting during the AGM.

In case of any query / grievance, Members may contact Mr Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL at 1800 22 55 33 or e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Queries / grievances may also be sent to the Company through email ID at ghlinvestors@yahoo.co.in.

The Results of voting will be declared within two working days from the conclusion of the 40th AGM. The declared Results, along with the Scrutinizer's Report, will be available forthwith on the Company's website www.gujarathotelsltd.in under the section 'Investor Relations' and on the website of CDSL. Such Results will also be forwarded by the Company to the BSE.

Date: 29th July, 2022

For Gujarat Hotels Limited Nitish Goenka **Chief Financial Officer**



CIN: L24121MH1979PLC021360

Regd. & Corporate Office: Sai Hira, Survey No. 93, Mundhwa, Pune - 411 036. Website: www.dfpcl.com Investor Relations Contact: investorgrievance@dfpcl.com, Tel: +91-20-6645 8094

(Amounts in ₹ Lakhs unless otherwise stated)

	EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2022						
	Particulars	Consolidated					
Sr. No.		Quarter Ended 30 June 2022	Quarter Ended 30 June 2021	Year Ended 31 March 2022			
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Total income from operations (net)	303,107	190,210	766,329			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax Exceptional and/or Extraordinary items)	64,946	19,041	101,253			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	64,946	19,041	101,253			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	43,566	13,063	68,748			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	42,211	13,125	69,552			
6	Equity Share Capital (Face value of ₹10/- per share)	12,059	10,268	12,059			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	376,363			
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (₹) (for continuing and discontinued operations) - Basic : Diluted :	36.13 34.72	12.47 11.64	60.44 58.25			

	THE ADDITIONAL INFORMATION ON STANDALONE FINANCIAL RESULTS IS AS BELOW					
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30 June 2022	Quarter Ended 30 June 2021	Year Ended 31 March 2022		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
1	Total Income from Operations (Net)	59,283	67,490	228,944		
2	Net Profit / (Loss) before Taxes	13,429	6,183	26,620		
3	Net Profit / (Loss) after Taxes	10.073	4,630	19.778		

- The above is an extract of the detailed format of the financial result filed with the stock exchanges for the quarter ended 30th June, 2022 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.dfpcl.com).
- Previous period's figures have been reclassified / regrouped wherever necessary (refer the full financial results).
 - The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on 28th July, 2022 and 29th July, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors of **Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited**

Chairman and Managing Director

DIN: 00128204

Founded in 1979, Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL) is India's leading producer of Fertilisers and Industrial Chemicals



Place: Pune

Date: 29-07-2022





S C MEHTA